

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2019 — श्रावण 31, शक 1941

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ. ग.

अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2019

प्ररूप पॉच
(नियम 9 देखिए)

बागबाहरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/156/वी. यो.-132/नग्रानि/2019.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बागबाहरा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रति कलेक्टर-महासमुंद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बागबाहरा एवं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय महासमुंद के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 22-08-2019 को अपराह्न 12.00 बजे जनपद पंचायत कार्यालय, बागबाहरा स्थित सभाकक्ष में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं.

उक्त प्रारूप विकास योजना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

- (क) भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.
- (ख) प्रारूप योजना के उपबन्धों को स्पष्टीकरण करने वाली मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.
- (ग) प्रारूप विकास योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पण जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राय की जाना है.

- (घ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चों तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित कार्यों के खर्चों का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाला टिप्पण.

हस्ता./-
(नरेन्द्र कुमार शुक्ल)
संचालक.

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING
Indravati Bhawan, Nawa Raipur Atal Nagar, C. G.

Atal Nagar, the 7th August 2019

FORM V
(See Rule 9)

Notice of Publication of Bagbahara Development Plan (Draft) 2031

No./156/DP-132/T&CP/2019. — Notice is hereby given that the draft of development plan for Bagbahara Planning Area has been published in accordance with the provision of sub-section (1) of Section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the office of Collector-Mahasamund, Chief Municipal Officer, Municipal Council Bagbahara and Assistant Director, Town & Country Planning, Regional Office Mahasamund during office hours. An exhibition is also organized dated 22-08-2019 at 12:00 O'clock at Meeting Hall of Janpad Panchayat Office, Bagbahara.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule below-

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft plan, it should be sent to the above places before the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

- (e) Existing land use map and narrative report.
- (f) Narrative report explaining the provision of the draft development plan supported by maps and charts.
- (g) Note indicating phasing of implementation of the draft plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.
- (h) Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquisition for public purposes, and the cost of works involved in the implementation plan.

Sd/-
(Narendra Kumar Shukla)
Director.